

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम-2

पत्रांक:—

230 अड्डा

दिनांक 10/03/2022

प्रेषक:—

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, सासाराम-2

सेवा में,

सचिव-सह-अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार ग्रामीण पथ विकास अभिकरण,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:—

MMGSY (GEN) मद में आवंटन निर्गत करने हेतु अधियाचना के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक MMGSY(GEN) मद में संलग्न सूची के अनुसार आवंटन अधियाचना एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है ।

अनु०:— यथोक्त ।

विश्वासभाज

10/03/22

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, सासाराम-2

FORM GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)

Form of utilisation Certification up to month of Nov 2021

R.W.D. Works Division-Sasaram-2 (Rohtas)

SL. NO.	Name of Scheme	Sanction No & Date with Amount (In Rs. Lacs)	Amount Received (In Rs. Lacs)	Particulars
1.	Construction of Rural Road under MMGSY GEN	Secretary cum mpowered officer BRRDA Letter No. 170 dated 26-10-2021	475.503244	Certified that out of Rs475.503244 Lacs of grant in aid received during the Year 2020-21 in favour of Excutive Engineer R.W.D. Works Div. Sasaram-2 A sum of Rs -475.503244 Lacs has been utilized for the purpose of MMGSY Gen Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs : 0.0000 Lacs remaining unutilized at the end of the period under.
		Total	475.503244	

2. Certified that I have satisfied my self that the conditions on which the grants-in aid was sanctioned have been duly fulfilled/are being fulfilled and that I have exercised the following checks to see that the money was actually utilized for the purpose for which it was sanctioned.

Kind of Checks exercised:-

- I. Works have been supervised by Excutive Engineer/ Superintending Engineer.
- II. Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- III. Consturction material have been tested.
- IV. Measurements have been recorded in the MBS and test check conducted by the Assistant Engineer/Executive Engineer.
- V. All other codal formalities have been observed.

3. Physiacl progress achieved:

- i. Construction of Road Works.
- ii. Construction of CD Works.

7/10/22
Divisional Accounts Officer
Rural Works Department
Works Div. Sasaram-2

10/03/22
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Div. Sasaram-2

Rural Works Department
MMGSY (Gen.) Allotment Requisition Format

MMGSV (Gen.) Allotment Requisition Format

Name of Division:- Sasaram-2

Sr. No.	Year	Name Of Road	Name of Contractor (in English)	Administrative Sanction		Agreement Amount (in Lacs)		Allotment Received (in Lacs)	Total Expenditure as per MIS (in Lacs)	Value of Measurement (in Lacs)	Current Demand (in Lacs) (11-9)	Remarks
				Length (in km)	Amount (in Lacs)	Main Work	Maintenance					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2019-20	Kuri to kuri tola	Rinki Devi	1.150	124.00000	76.57318	7.11092	0.00000	0.00000	40.80381	40.80381	

नोट:- खर्च का मिलान MIS से होना आवश्यक है।

- अधियावित राशि का पथवार मापीपुस्त की प्रथम एवं अन्तिम पेज की अभिप्रमाणित छाया प्रति सलवन होना आवश्यक है।
- पूर्व निर्गत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सलवन होना आवश्यक है।
- योजनावार सभी पर्यो का अधियाचना एक साथ भोजना आवश्यक है।
- निर्गत राशि का डी० सी० विपत्र 15 दिनों के अन्दर बाडा कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

21/5/2022

Divisional Accounts Officer
Rural Work's Department
Works Division- Sasaram-2

21/5/2022

Executive Engineer
Rural Work's Department
Works Division- Sasaram-2